



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 515 राँची, सोमवार,

24 जून, 2019 (ई०)

#### राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

24 जून, 2019

अधिसूचना संख्या-5/स.भू. विविध (सबलीज)-134/18-2254 -- राज्य के सरकारी भूमि के लीज बंदोबस्ती में सबलीज के प्रावधान को सन्निहित करने हेतु संकल्प संख्या-293/रा0, दिनांक-22.01.19 निर्गत है। उक्त संकल्प की कंडिका-1 (d) के अंतिम वाक्य में "सबलीज के दर एवं अन्य शर्तों का निर्धारण कर राज्य सरकार द्वारा इसे अलग से अधिसूचित किया जायेगा" का प्रावधान किया गया है।

2. अतएव सबलीज के दर एवं शर्तों का निर्धारण करने हेतु निम्नवरूपेण समिति का गठन किया जाता है :-

- |  |           |
|--|-----------|
| (i) विकास आयुक्त, झारखण्ड                                | - अध्यक्ष |
| (ii) सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड             | - सदस्य   |
| (iii) सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड | - सदस्य   |
| (iv) सचिव (संसाधन), योजना-सह-विधि विभाग, झारखण्ड         | - सदस्य   |

3. समिति सबलीज करने के दर एवं शर्तों के संदर्भ में विभिन्न पहलूओं पर विचार कर अपनी अनुशंसा 15 दिनों के अन्दर सरकार को समर्पित करेंगे।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

**राम कुमार सिन्हा,**  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

-----